



कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकें

लक्षण



खाँसी

बुखार

साँस लेने में तकलीफ

वायरस संक्रमण से बचने के लिये...



बिना व्यक्ति से छींकी, जुकाम या बुखार के लक्षण हैं तबसे दूरी बनाएँ।



निर्धारित समय से साबुन और पानी से हाथ धोएँ।



हाथ मिलाने के बजाय
नमस्ते करें



छींकने और खसिकने समय नाक और मुँह ढकें, कबूतरे में प्रयोग किये गये टिश्यू काँची किसी बंद डिब्बे में फेंक दें।



चीटू-धरातू ताले जगह से बर्धे अलगावमयक यात्रा न करें।

सावधानी रखें

कोरोना वायरस से बचें

खाँसी, बुखार या साँस लेने में परेशानी है तो शासकीय चिकित्सक से उपचार लें।

अधिक जानकारी के लिये टोल फ्री नं. **104** पर सम्पर्क करें

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश